

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 8] दिल्ली, मई 17—मई 23, 2019, बृहस्पतिवार/वैशाख 27— ज्येष्ठ 2, 1941 [रा.रा.क्षे.दि. सं. 44
No. 8] DELHI, MAY 17—MAY 23, 2019, THURSDAY/VAISHAKHA 27 — JYAISTHA 2, 1941 [N.C.T.D. No. 44]

भाग -II—खण्ड I

PART-II—Sec. I

न्यायिक और मजिस्ट्रेरी मामलों पर अधिसूचनाएं और आदेश, उच्च न्यायालय की अधिसूचनाएं और भारत के निर्वाचन आयोग की विधिक अधिसूचनाओं तथा अन्य निर्वाचन अधिसूचनाओं का पुनः प्रकाशन
Notifications and Orders on Judicial and Magisterial matters, reproduction of High Court Notifications and Statutory Notifications of the Election Commission of India and other Election Notifications.

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 1 अप्रैल, 2019

सं. 366/स्थापना/ई.-2/डी.एच.सी.—माननीय मुख्य न्यायाधीश इस न्यायालय की स्थापना में निम्नलिखित नियुक्ति सहर्ष करते हैं:

क्रम सं.	अधिकारी का नाम तथा धारित पद	पद जिस पर नियुक्ति हुई	टिप्पणी
1.	सुश्री मधु सिंघल, उप निबंधक	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 14 में अस्थायी संयुक्त निबंधक (सातवें वेतन आयोग के अनुसार)	दिनांक 01.04.2019 से आगामी आदेशों तक श्री उमेश चंद्र शर्मा, संयुक्त निबंधक की सेवानिवृत्ति पर उपलब्ध संयुक्त निबंधक की रिक्ति के प्रति।

नोट : उपरोक्त नियुक्ति (i) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 20362/2016 शीर्षक “रविंदर पाहुजा एवं अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य”, (ii) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 19374/2016 शीर्षक

“के.के. शर्मा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य”, (iii) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 27418/2016 शीर्षक “दिनेश मनचंदा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य”, (iv) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 22722/2016 शीर्षक “प्रतिमा रानी गुप्ता व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य” तथा (v) रिट याचिका (सिविल) सं. 8016/2016 शीर्षक “अतुल कुमार शर्मा बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य” के परिणाम के अध्यक्षीन है तथा इस शर्त के भी अध्यक्षीन कि उपरोक्त निर्णयों के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप यदि उनका वरिष्ठता स्तर अवनत होता है तो वे अपना स्थान अपने से ऊपर आसीन अधिकारी(गण) हेतु छोड़ने के लिए बाध्य होंगी एवं यदि कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं होती है तो वे प्रत्यावर्तित हो जायेंगी।

HIGH COURT OF DELHI : NEW DELHI

NOTIFICATIONS

Delhi, the 1st April, 2019

No. 366/Estt./E-2/DHC.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to make the following appointments on the establishment of this Court:-

Sr. No.	Name of the officer & Post held	Post to which appointed	Remarks
1.	Ms. Madhu Singhal, Deputy Registrar	Temporary Joint Registrar in the Level 14 of Pay Matrix (as per 7 th Pay Commission)	With effect from 01.04.2019 till further orders against the vacancy of Joint Registrar arising upon retirement of Mr. Umesh Chandra Sharma, Joint Registrar.

NOTE: The above appointment is subject to outcome of (i) SLP (Civil) No. 20362/2016 titled “*Ravinder Pahuja & Ors. Vs. High Court of Delhi & Ors.*”, (ii) SLP (Civil) No. 19374/2016 titled “*K.K.Sharma & Ors. Vs. High Court of Delhi & Ors.*”, (iii) SLP (Civil) No. 27418/2016 titled “*Dinesh Manchanda & Ors. Vs. High Court of Delhi & Ors.*”, (iv) SLP (Civil) No. 22722/2016 titled “*Pratima Rani Gupta & Others Vs. High Court of Delhi and Ors.*” and (v) W.P. (C) No.8016/2016 titled “*Atul Kumar Sharma Vs. Delhi High Court and Anr.*” and also subject to the condition that in case as a result of implementation of above decisions, her seniority position is depressed, she will be liable to yield her position to the officer(s) placed senior to her and in case no vacancy is available, she shall stand reverted.

सं. 367/स्थापना/ई.-2/डी.एच.सी. .—माननीय मुख्य न्यायाधीश इस न्यायालय की स्थापना में निम्नलिखित नियुक्ति सहर्ष करते हैं:

क्रम सं.	अधिकारी का नाम तथा धारित पद	पद जिस पर नियुक्ति हुई	टिप्पणी
1.	सुश्री सुमन कालिया, वरिष्ठ न्यायिक सहायक	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 में अस्थायी प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) (सातवें वेतन आयोग के अनुसार)	दिनांक 01.04.2019 से आगामी आदेशों तक 35% वरिष्ठता कोटे के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) की रिक्ति के प्रति।

नोट: 1. उपरोक्त वर्णित अधिकारी की नियुक्ति प्रारंभ में उनकी वास्तविक नियुक्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होगी तथा परिवीक्षा अवधि की समाप्ति उनके स्वतः स्थायीकरण में परिणत नहीं होगी।

2. उपरोक्त नियुक्ति (i) रिट याचिका (सिविल) सं. 4077-84/2004 शीर्षक “अतुल कुमार शर्मा एवं अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय”, (ii) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 20362/2016 शीर्षक “रविंदर पाहुजा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य”, (iii) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 19374/2016 शीर्षक “के.के. शर्मा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य”, (iv) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 27418/2016 शीर्षक “दिनेश मनचंदा एवं अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य”, (v) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 22722/2016 शीर्षक “प्रतिमा रानी गुप्ता व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य” (vi) रिट याचिका (सिविल) सं. 8016/2016 शीर्षक “अतुल कुमार शर्मा बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य तथा (vii) एस.एल.पी. (सिविल) सं. 25407/2016 शीर्षक “मिथिलेश कुमारी बनाम महानिबंधक, दिल्ली उच्च न्यायालय” के परिणाम के अध्यधीन होगी |

यश पाल, विशेष कार्य अधिकारी (स्थापना)

No. 367/Estt./E-2/DHC.—Hon’ble the Chief Justice has been pleased to make the following appointments on the establishment of this Court:-

S. No.	Name of the Official & Post held	Post to which appointed	Remarks
1.	Ms. Suman Kalia, Senior Judicial Assistant	Temporary Admn. Officer (Judl.) in the Level 11 of Pay Matrix (as per 7 th Pay Commission)	With effect from 01.04.2019 till further orders against the vacancy of Admn. Officer (Judl.) under 35% seniority quota.

- NOTES :** 1. The appointment of above mentioned officer will be on probation initially for a period of one year from the date of her appointment and expiry of the period of probation shall not result in her automatic confirmation.
2. The above appointment will be subject to outcome of the W.P.(C) No. 4077-84/2004 titled *Atul Kumar Sharma & Ors. vs. High Court of Delhi*, (ii) SLP (Civil) No. 20362/2016 titled *‘Ravinder Pahuja & Ors. Vs High Court of Delhi & Ors.’* (iii) SLP (Civil) No. 19374/2016 titled *‘K.K. Sharma & Ors. Vs High Court of Delhi & Ors.’* (iv) SLP (Civil) No. 27418/2016 titled *‘Dinesh Manchanda & Ors. Vs. High Court of Delhi and Ors.’* (v) SLP (Civil) No. 22722/2016 titled *‘Pratima Rani Gupta & Others Vs High Court of Delhi and Ors.’* (vi) W.P.(C) No. 8016/2016 titled *Atul Kumar Sharma Vs. Delhi High Court and Anr.’* And (vii) SLP (Civil) No. 25407/2016 titled *“Mithlesh Kumari vs. Registrar General, Delhi High Court.*

YASH PAL , O.S.D. (Estt.)